

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में संशोधन

यह एडिटरियल 17/11/2022 को 'द हद्वि' में प्रकाशित "Quest for transparency in FTA negotiations" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की वर्तमान वदेश व्यापार नीति में वदियमान चुनौतियों और इसमें आवश्यक परिवर्तनों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारत वतित वर्ष 2023 तक 450-500 बलियिन अमेरिकी डॉलर के महत्त्वकांक्षी नरियात शपिमेंट लक्ष्य के साथ नरियात-उन्मुख घरेलू वनरिमाण को बढावा देने के लिये पछिले दो वर्षों से कई भागीदारों - द्वपिक्षीय और क्षेत्रीय दोनों - के साथ [मुक्त व्यापार समझौतों](#) (Free Trade Agreements- FTAs) पर वार्ता कर रहा है।

- वतित वर्ष 2021-22 में भारत का नरियात 418 बलियिन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया जो वतित वर्ष 2018-19 में महामारी-पूर्व के स्तर 331 बलियिन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यद्यपि व्यापार में ये उपलब्धियाँ प्रशंसनीय हैं, फरि भी भारत में अभी भी व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं जनिहें साकार कया जाना चाहिये।
- यदि हम भारत के ट्रेड पोर्टल (India's Trade Portal) के अनुमानों पर गौर करें तो कई क्षेत्रों—वशिष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, रत्न एवं आभूषण और रसायनों में भारत की नरियात क्षमता और वास्तविक नरियात में व्यापक अंतर दिखाई देता है। इसलिये, यह उपयुक्त समय होगा कि क्षेत्र-वशिषिट और बाज़ार-वशिषिट समस्याओं का समाधान कया जाए ताकि हम सभी क्षेत्रों में नरियात की पूर्ण क्षमता को साकार कर सकें।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

- FTA वभिन्नि देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच एक समझौता होता है जो व्यापार बढाने के दृष्टिकोण से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं (Trade Barriers) को कम करने या उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
 - इसमें माल, सेवाएँ, नविश, बौद्धिक संपदा, प्रतस्पर्द्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
- मुक्त व्यापार की यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद (Trade Protectionism) या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) का वल्लोम है।
- FTAs को [अधमिनय व्यापार समझौते](#) (Preferential Trade Agreement- PTA), [व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते](#) (Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) के रूप में वर्गीकृत कया जा सकता है।

FTAs का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- FTAs स्थानीय उत्पादन को वदेशी व्यापार के साथ संयुक्त कर अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढावा देने में सहायता करते हैं।
 - चूँकि FTAs के कारण प्रत्येक देश द्वारा कम लागत पर चयनित वस्तुओं का उत्पादन कया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन और खपत में वृद्धिलाता है।
- सीमारहति व्यापार (Borderless Trade) को सुवधाजनक बनाने के अलावा, FTAs अधिकाधिक व्यवसायों के लिये सीमा पार व्यापार को आसान बनाकर आपूर्ति शृंखलाओं में वविधिता लाने में मदद करते हैं।

भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की वर्तमान स्थिति

- भारत वर्तमान में 12 FTAs का कार्यान्वयन कर रहा है जसिमें भारत-यूई CEPA नवीनतम है।
- नवंबर 2019 में [क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी](#) (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से भारत के बाहर आने के बाद 15 सदस्यीय FTA समूह (जसिमें जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) में भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौते उंडे बस्ते में चले गए थे।
- लेकनि अब संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भारत के द्वपिक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है।

- **भारत के प्रमुख व्यापार समझौते**
 - [व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता](#) (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement-CECPA)
 - [दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र](#) (South Asian Free Trade Area- SAFTA)
 - [एशिया प्रशांत व्यापार समझौता](#) (Asia Pacific Trade Agreement- APTA)
 - दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता (South Asia Preferential Trading Agreement- SAPTA)

भारत की वदेश व्यापार नीति से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **पारदर्शिता और संवीक्षा की कमी:** भारत अधिकांश FTAs पर बंद दरवाजों के पीछे बातचीत करता है, जहाँ उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है और उनकी नगण्य संवीक्षा की जाती है।
 - इसके अलावा, कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है जो FTAs पर हस्ताक्षर के दौरान और उसके बाद कार्याकारी के कृत्यों की संवीक्षा में सक्षम हो।
- **ऋणात्मक व्यापार संतुलन:** पछिले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान), दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ FTAs पर हस्ताक्षर किये हैं। लेकिन नरियात में वृद्धि के बावजूद भारत आसियान और जापान जैसे देशों के साथ ऋणात्मक व्यापार संतुलन (Negative Balance of Trade) की स्थिति रखता है।
 - भारत ने वर्ष 2020-21 में आसियान देशों के साथ 15.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2020-21 में जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा 6.49 बिलियन डॉलर का रहा।
- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** जबकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर 85% निर्भरता रखता है, एक घरेलू कोयला संकट भी बजिली की मांग की पूर्ति के लिये शुष्क ईंधन की वदेशी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये उसे विवश कर रहा है।
 - इसके अतिरिक्त, जारी रूस-यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने वैश्विक तेल एवं कमोडिटी की कीमतों में भारी वृद्धि की है और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न किये हैं।
- **आत्मनिर्भरता को भ्रमति रूप से संरक्षणवाद समझा जाना:** 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने इस भ्रम को बढ़ाया है कि भारत तेज़ी से एक संरक्षणवादी बंद बाज़ार अर्थव्यवस्था में परिणत होता जा रहा है।

आगे की राह

- **खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की ओर:** भारत के व्यापार नीति ढाँचे को आर्थिक सुधार का सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये, जिसके परिणामस्वरूप एक खुली, प्रतिस्पर्धी और प्रोद्योगिकीय रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।
 - इसलिये, भारत को वैश्विक आर्थिक नेटवर्क में उद्यमियों को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिये जो उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकने का अवसर देगा।
- **MSME क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना:** सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 40% के योगदान के साथ MSMEs महत्त्वाकांक्षी नरियात लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख खलिाड़ी होने की भूमिका रखते हैं।
 - भारत के लिये [विशेष आर्थिक क्षेत्रों](#) (Special Economic Zones- SEZs) को [MSME क्षेत्र](#) से जोड़ना और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **घरेलू आधार का विस्तार करना:** भारत को इंजीनियरिंग वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि मशीनरी जैसे मूल्यवर्द्धित उत्पादों में अपने घरेलू वनिरिमाण आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग फरि नरियात को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** एक सुदृढ़ आधारभूत संरचना नेटवर्क—जिसमें गोदाम, बंदरगाह, परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणन केंद्र आदि शामिल हैं, भारतीय नरियातकों को वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर सकने में सक्षम बनाएगा।
 - भारत को आधुनिक व्यापार अभ्यासों को भी अपनाने की आवश्यकता है जिनमें नरियात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
- **FTAs की संवीक्षा:** वाणज्य समिति FTAs की संवीक्षा करने, समझौतों एवं वार्ताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और इस प्रकार वधायिका के लिये कार्याकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: भारत की अब तक की मुक्त व्यापार समझौता (FTA) यात्रा का एक अवलोकन प्रदान कीजिये और देश की वदेश व्यापार नीति में प्रमुख परिवर्तनों के सुझाव दीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

Q1 पूरण और प्रतिव्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है, यदि (वर्ष 2018)

(A) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल बनाए रखने में विफल रहता है।

- (B) कृषिउत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल बनाए रखने में वफिल रहता है ।
(C) गरीबी और बेरोज़गारी में वृद्धि
(D) नरियात की तुलना में आयात तेज़ी से बढ़ता है ।

उत्तर: (C)

Q2. SEZ अधिनियम, 2005, जो फरवरी 2006 में प्रभाव में आया, के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि (वर्ष 2010)

1. अवसंरचना सुवधियों का वकिकास ।
2. वदिशी स्रोतों से नविश को बढ़ावा देना ।
3. केवल सेवाओं के नरियात को बढ़ावा देना ।

उपर्युक्त में से कौन-से इस अधिनियम के उद्देश्य हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

Q3. एक "बंद अर्थव्यवस्था" एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें (वर्ष 2011)

- (A) पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नयित्तरति है
(B) घाटे की वत्ति व्यवस्था होती है
(C) केवल नरियात होता है
(D) न तो नरियात या आयात होता है

उत्तर: (D)